



**राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक**

साआधिकार प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary**

*Published by Authority*

भाद्र 5, मंगलवार, शाके 1941 अगस्त 27, 2019

Bhadra 5, Tuesday, Saka 1941—August 27, 2019

**भाग 6 (क)**

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT**

**RAJASTHAN, JAIPUR**

**ORDER**

**Jaipur, August 14, 2019**

**F.10 (Elec) LSG/19/ 7428** .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipality Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipal (Election) Rules, 1994 Chief Municipal officer Municipal Board Kaithun has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Kaithun. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of Chief Municipal officer and approves the draft order of ward formation as proposed by Chief Municipal officer.

**By Order,  
Ujjwal Rathore,  
Joint Secretary to Governement.**

प्रफोर्मा "क"  
संस्था का नाम :— नगर पालिका कैथून जिला कोटा

क्र.सं.	प्रस्तावित वार्ड सं०	कुल जन संख्या	नवगठित वार्डों के सीमांकन का विवरण
01	01	1059	चन्द्रलोही नदी की पुलिया से बस स्टेण्ड, मेघवाल बस्ती, टोडी मोहल्ला रोड—रोड राम—लक्ष्मण के मन्दीर से अरनियां रोड—2 संग का बाग हनुमान मंदीर को लेते हुए माईनर तक भेरुलाल सुमन के मकान को शामिल करते हुये हीरा सिंह जी के मकान को लेते हुए रोड—रोड चन्द्र लोही नदी किनारे—किनारे पुलिया बस स्टेण्ड।
02	02	869	कोटा सांगोद रोड की पुलिया से कोटा डोरिया पार्क से प्रेमचन्द खटीक के मकान से रोड—रोड रफीक ढलवाल के मकान को लेते हुए रोड—रोड कल्लू मेसरी की गली से नजरू नागरा की आईसक्रीम फैक्ट्री को लेते हुए देवली अरब स्कूल व सहकारी को शामिल कर टेक पार कर यासीन जी कम्पाण्डर के मकान से कोटा डोरिया पार्क तक एवं मध्य का सम्पूर्ण क्षेत्र।
03	03	866	निजाम की चक्की से रोड—रोड पुलिया बस स्टेण्ड से अस्थल मठ को शामिल करते हुए चन्द्रलोही नदी के किनारे—किनारे सैदों के घाट से कमेले पर चढ़कर सामुदायिक शौचालय से फतैह मो० शाह के मकान को शामिल कर मेहमूद सैद के मकान से गली—गली फखरू सैद के मकान को शामिल कर मुन्ना बिहारी के मकान से गली—गली साबिर तबारा के मकान को शामिल कर ईस्माइल घोडे वाले के मकान से चक्की तक एवं मध्य का समस्त क्षेत्र।
04	04	868	कोट मौहल्ला नवकार खाना मे हुसैन लडिया के मकान से छुट्टन

			सेठ के मकान को शामिल कर गली—गली अन्जार हाडौतिया के मकान से घूम कर युसुफ बेहलीम के मकान को शामिल कर नूर मो0 बाजे वाले के मकान से लटूर बैण्ड वाले के मकान को शामिल कर नसीर देवा के मकान से मौहम्मद अली फैणु के मकान को शामिल कर गली—गली कमरु ताजग के मकान से जुम्मा सैद के मकान को लेकर कमेले पर इंद्रीस सैद के मकान से भूरिया टेन्ट वाले के मकान को शामिल कर गली—गली सलीम ताजक के मकान को शामिल कर हुसैन अगवान के मकान से अब्दुल वहीद मंत्री के मकान को शामिल कर नवकार खाने में रज्जन के मकान तक एवं मध्य का समस्त क्षेत्र।
05	05	863	जमाल शाकर वाले के मकान से जाकिर बिहारी के मकान को लेकर रोड—रोड जुम्मा उस्ताद के मकान से आवंलिया के मकान को शामिल कर कदुस गुडकिया के मकान से कठेडे पर वाहब सेठ के मकान को शामिल कर सलाम मल्ली के मकान से ग्यासुद्दीन गहलोत के मकान को शामिल कर गली—गली मदार की मस्जिद को शामिल करते हुए नवकार खाने की मस्जिद से कुआं घाट की मस्जिद को शामिल करते हुए चन्द्रलोही नदी के किनारे—किनारे एवं गादील जमातखाने तक एवं मध्य का समस्त क्षेत्र।

**प्रफोर्म “क”**  
**संस्था का नाम :— नगर पालिका कैथून जिला कोटा**

क्र. सं.	प्रस्तावित वार्ड सं0	कुल जन संख्या	नवगठित वार्डों के सीमांकन का विवरण
06	06	939	चार हाटडिया में जाकिर मंजर के मकान से रोड—रोड भाटों की बावड़ी को शामिल कर रफीक अगवान के मकान से शकिल गहलोत के मकान को शामिल कर गुड़ी कपडे वाली के मकान से रोड—रोड डण्डा पटेल के मकान को शामिल कर सामने हनीफ बर्क साहब के मकान से जहरुद्दीन मुआल के मकान को शामिल कर इरफान के मकान से चार हाटडिया चौक में चाय वाले तक एवं मध्य का समस्त क्षेत्र।
07	07	881	अ0 जब्बार राही के मकान से रोड—रोड हाजी मस्तान के मकान को शामिल कर रोड—रोड मेहमूद टेन्ट वाले के मकान से हमीद की आईसक्रीम फैकट्री को शामिल कर मवासा रोड की ओर सरकारी बौरिंग को लेते हुए गांवघर की ओर घूम कर रोड—रोड चल कर लियाकत खोखर के मकान को शामिल करते हुए जाहीद खीरबाटी के मकान से होते हुए कुआ घांट के पास से उपर सिंधियां चढ़कर जब्बार राही के मकान तक एवं मध्य का समस्त क्षेत्र।
08	08	941	मवासा रोड पर कल्लू छतरी वाले के प्लॉट से रोड—रोड सीएफसी को शामिल कर नयाखेडा की ओर घूम कर रोड—रोड कब्रिस्तान के पास सामुदायिक शौचालय से नदी के किनारे—किनारे ईदगाह चौक मदरसा रजविया को शामिल करते हुए हाजी अ0 हमीद नौसरानी के मकान से रोड—रोड चलते हुए सलीम मेहरोली के मकान से कल्लू छतरी वाले के प्लॉट तक एवं मध्य का समस्त क्षेत्र।
09	09	1138	शौकत मुक्का के मकान से चलकर चन्द्रलोही नदी के किनारे—किनारे समले वर महादेव मन्दिर की सरहद से मवासा पुलिया तक एवं उत्तर की ओर चलकर मवासा रोड—रोड सत्तार

			सरवाडी के मकान को शामिल कर खाल-खाल चलकर मीरा बस्ती व बीर चिराग के मकान को शामिल करते हुए श्रीरामनगर कच्ची बस्ती की दूसरी एवं तीसरी गली एवं मध्य का समस्त क्षेत्र।
10	10	1092	विभीषण मन्दिर रोड से रोड-2 विद्युत विभाग, हेदरी जी का मकान, पुलिस थाना, सिंचाई विभाग, रीछ वाले बाबा की बस्ती श्याम विहार बस्ती, सांगोद रोड के दाहिने हाथ की सम्पूर्ण बस्ती, लाडपुरा पुलिया से सरदारों के मकानों तक का समस्त भाग एवं श्रीरामनगर कच्ची बस्ती में दूसरी गली में रोड-रोड दाहिने ओर के समस्त मकानों को भासिल करते हुए बाबू गुर्जर के मकान तक एवं रोड पार कर सरकारी स्कूल को भासिल करते हुए नाले के सहारे-सहारे विभीषण मन्दिर कोटा-सांगोद रोड तक एवं मध्य का समस्त क्षेत्र।
11	11	1120	बस स्टेण्ड पटवार घर से रामद्वारा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रा० उ० मा० विद्यालय को शामिल करते हुए बूटा सिंह कॉलोनी से सांगोद रो नहर पुलिया के पास नगर पालिका की हाई मार्स्क से नहर नहर सामुदायिक शौचालय को शामिल करते हुए कृशि उपज मण्डी से बस स्टेण्ड तक एवं मध्य का समस्त क्षेत्र।

**प्रफोर्मा "क"**  
**संस्था का नाम :— नगर पालिका कैथून जिला कोटा**

क्र. सं.	प्रस्तावित वार्ड सं०	कुल जन संख्या	नवगठित वार्डों के सीमांकन का विवरण
12	12	1025	शिव मन्दिर से गफूर खाती के मकान से होते हुए मांगीलाल मास्टर के मकान को शामिल करते हुए रामे वर धाकड़ के मकान तक रोड पार कर मदनलाल सुमन के मकान से रोड-रोड पिंजारों की चौकी को भासिल करते हुए रुपचन्द मेहर-सोनी मेडीकल को शामिल करते हुए बोहरा जी के गैराज तक गैराज से लेकर SBI बैंक को शामिल करते हुए BOB बैंक को शामिल करते हुए शिव मन्दिर तक एवं मध्य का समस्त क्षेत्र।
13	13	871	रसूल लखारा के मकान से रोड-रोड तुलसी राम के मकान को शामिल कर बशीर ठेकेदार के मकान से देवेन्द्र शर्मा के मकान को लेते हुए सुदीप लहसोरा के मकान को शामिल कर गली-गली नन्हे बाजे वाले के मकान को लेकर लाल मौ० सेठ के मकान को शामिल कर सत्तू जी सहकारी वाले के मकान से कोटा रोड पर रोड-रोड सज्जाद नागरा की दुकान को शामिल कर टेक चढ़कर जकात के स्कूल से मुस्ताक चण्डालिया के मकान को लेकर राजू के मकान को शामिल कर अख्तर शक्ती के मकान से वासल के मकान को शामिल कर रसूल लखारा के मकान तक एवं मध्य का समस्त क्षेत्र।
14	14	887	इदरीस पुदा की दुकान से हमीद बिहारी के मकान को शामिल कर रोड-रोड गादीगाल चौक की तरफ जाहीद कचारा के मकान को लेकर अजीज बिहारी के मकान को शामिल कर मामा काटा के मकान को लेते हुए सिढीयां चढ़कर कमरू हाड़ौतिया के मकान को शामिल करते हुए मौलाना उमर के मकान से बशीर सैद के मकान को लेते हुए रोगनियों की मस्जिद को शामिल कर सितारा शाह के मकान व इरफान चाटुबली के मकान को शामिल कर इदरीस पुदा की दुकान तक एवं मध्य का समस्त क्षेत्र।

15	15	928	गौतम समाज के पुराने नोहरे से उपर गर्ल्स स्कूल की गली में चढ़कर पण्डित गोपाल ठाकुर के मकान को शामिल करते हुए भगवान सेव वाले के मकान से विमल जैन के मकान को शामिल करते हुए शानू बर्टन वाले के मकान तक व सामने लम्बी गली में गर्ल्स स्कूल को शामिल करते हुए गली—गली जाकिर हवया के मकान से गली—गली बम्बई वालों के मकान को शामिल करते हुए सामने मांग्या बाबा की गली से चलते हुए नीलगरों की मस्जिद से गली—गली चलकर गिराई के पास छोटा सेठ के मकान को शामिल करते हुए कदीर भट्ट वाले के मकान से कदूस बिहारी के मकान को शामिल करते हुए तैलियों के मन्दिर से गहलोत मेडिकल को लेकर रसूल लखारा के मकान से मेन बाजार गर्ल्स स्कूल तक व मध्य का समस्त क्षेत्र।
16	16	1107	नरेश जैन के मकान से नजर मौहम्मद सेठ के मकान को शामिल करते हुए सुरेन्द्र सोनी की दुकान से रोड—रोड लियाकत अगवान से चार हाटडिया में शकूर बेहलिम के मकान को शामिल कर शोकत चक्की के मकान से रजाक भाककर के मकान को शामिल कर नरेश जैन के मकान तक एवं मध्य का समस्त क्षेत्र।

**प्रफोर्मा "क"**  
**संस्था का नाम :- नगर पालिका कैथून जिला कोटा**

क्र. सं.	प्रस्तावित वार्ड सं०	कुल जन संख्या	नवगठित वार्डों के सीमांकन का विवरण
17	17	950	बैरवा समाज के मन्दिर से रोड—रोड कमरू के मकान को लेते हुए खलील बिहारी के मकान को शामिल कर दारू के ठेके से आगे चलकर मुकेश कहार के मकान को शामिल करते हुए शाहपुरा की गली में घुमकर गली—गली बड़ी मस्जिद को शामिल कर गणेश जी के मन्दिर से सूरजमल सोनी के मकान को लेते हुए सुल्तान के मकान को लेकर राठौर किराना की दुकान से रोड—रोड बशीर भाई मेव के मकान को शामिल कर कदूस नागरा की दुकान से शंकर मेडिकल को लेते हुए कोटा रोड पर रोड—रोड बैरवा समाज के मन्दिर तक एवं मध्य का समरस्स क्षेत्र।
18	18	966	द्वारकालाल गोत्तम के मकान से बोहरा जी की टेक पर होते हुए रोड—रोड महेन्द्र जी के मकान को शामिल करते हुए रोड—रोड गनी हाड़ौतिया के मकान को शामिल करते हुए सफारा की तरफ घुम कर रोड—रोड ईदु हाड़ौतिया के मकान से मो० हुसैन नीलगर के मकान को शामिल करते हुए पप्पू नीलगर की गली में घुम कर इस्हाक ढलवाल के मकान से शकील मछली वाले के मकान को शामिल करते हुए रोड—रोड चलकर सरफुद्दीन गहलोत के मकान से कुम्हारों के मकान को शामिल कर निजाम भाई गहलोत के मकान को शामिल करते हुए द्वारका लाल गोत्तम के मकान तक एवं मध्य का समस्त क्षेत्र।
19	19	984	सोना के मकान से प्रारम्भ करते हुए लीला सुमन के मकान को शामिल करते हुए विवेक स्कूल रोड पार कर भवानी शंकर राठौर के मकान से अकीला का मकान, गिरधर राठौर के मकान को शामिल करते हुए चार भुजा मन्दिर से होते हुए रोड—२ यासिन लखारा के मकान को शामिल कर गली के उपर चढ़कर रांबा०प्रा०वि० को शामिल कर गली के उपर चढ़कर ओम जी

			के मकान को लेते हुए रोड क्रोस कर छिपो के मन्दि को शामिल करते हुए गली-2 खुशी लीलगर के मकान को शामिल करते हुए जैन मन्दिर को लेते हुए हनिफ मौलवी के मकान को शामिल कर सेठ नजर मो० के मकान को लेते हुए गली-2 अफजल के मकान को शामिल करते हुए लीलगर की मस्जिद को लेते हुए छीतर पिंजारा के मकान को शामिल करते हुए छीपो के मन्दिर को लेते हुए रोड पार कर रमेश हलवाई के मकान को शामिल कर शिव नारायण दोसाया के मकान को लेते हुए गटटानी के मकान को शामिल रोड क्रोस कर अब्बास के मकान को लेते हुए पप्पु मंसुरी के मकान को शामिल करते हुए माता जी के मन्दिर को लेते हुए रोड क्रोस कर रतन राठौर के मकान को शामिल करते हुए महावीर पोकरा के मकान को शामिल करते हुए दुर्गाशंकर पुरी के मकान को शामिल कर रोड पार कर सोना के मकान तक।
20	20	976	धनपाल मालव के मकान से रोड-रोड पुरी साहब की दुकान के पास बहिता गणेश जी को शामिल करते हुए रोड-रोड अनवर बोरिंग वाले के मकान को शामिल करते हुए ग्यासु कबाड़ी की दुकान से होते हुए रोड-रोड मदरसे वाली गली में घूम कर मदरसे को शामिल करते हुए सीधे रोड-रोड धनपाल मालव के मकान तक मध्य का समर्त क्षेत्र।
21	21	1123	बाकुल माता मन्दिर से रोड-रोड नगर पालिका को शामिल करते हुए बस स्टेप्ड से कि अनपुरा रोड की ओर घूम कर रोड-रोड कि अनपुरा बस्ती व बीबी माई को शामिल करते हुए कि अनपुरा पुलिया से नहर-नहर होते हुए कोटा सागोंद नहर को क्रॉस कर जाखोड़ा मोड आदेश नगर बस्ती को शामिल कर वापस घूम कर किशनपुरा पुलिया से बांधी ओर मुड़कर अरनिया की ओर हैण्डपम्प से नीचे उत्तरकर विद्या इंकर नन्दवाना के खेत को शामिल कर रोड-रोड बाकुल माता मन्दिर तक।

**प्रफोर्मा "क"**  
**संस्था का नाम :- नगर पालिका कैथून जिला कोटा**

क्र. सं.	प्रस्तावित वार्ड सं०	कुल जन संख्या	नवगठित वार्डों के सीमांकन का विवरण
22	22	934	गुल मौहम्मद हाडोतिया के मकान से इमदाद अगवान के मकान को शामिल कर सिढीयां उतर कर सामने मक्सूद बाबा से रोड-रोड चलकर तजम्मल कचारा के मकान को शामिल कर रजिया कचारा मिलाद वाली के मकान तक एवं शौकत की चक्की को लेते हुए रोड-रोड चलकर गादीगाल के चौक में मदरसा ईस्लामिया से चन्द्रलोही नदी के सहारे-सहारे वैद्यनाथ मन्दिर, मलंगशाह को शामिल कर हाजी रफीक के मकान को शामिल कर फरियाद के मकान से सत्तार सैद के मकान को शामिल कर पीछे गली चढ़ते हुए रमजानी अगवान के मकान को शामिल कर खालिक अगवान के मकान से गली-गली जमाल के मकान को लेकर शाकिर अगवान के मकान तक एवं मध्य का समर्त क्षेत्र।
23	23	945	मजीद बाबा के मकान से चार हाटडयि इस्हाक चाय वाले के मकान को लेकर सामने हाजी नूर मौहम्मद के मकान को शामिल कर मंजूर अगवान के मकान से आधिक के मकान को लेकर गफकार ताज साईकिल वाले के मकान को शामिल कर

			अली मो० नागरा के मकान को शामिल कर सामने की गली नसरुद्दीन अंसारी के मकान को लेते हुए गली—गली हलीम खन्ना के मकान को शामिल कर मजीद बाबा के मकान तक एवं मध्य का समस्त क्षेत्र।
24	24	966	चित्रगुप्त स्कूल से कहार समाज के मन्दिर को शामिल करते हुए मवासा रोड क्रॉस कर निजाम नागरा के मकान को शामिल करते हुए रोड—रोड विभीषण जी की धर्म गाला से घूम कर अ गौक वाटिका को शामिल करते हुए नरेन्द्र सुमन के मकान से मन्जूर मेव के मकान को शामिल करते हुए नाला—नाला चलकर श्रीरामनगर कच्ची बस्ती के कॉम्प्लैक्स व खेल को शामिल करते हुए उत्तर की ओर मवासा रोड पर रोड—रोड इलियास खोखर के माकन से मदरसा अलविया तबकातिया को शामिल कर, रोड क्रॉस कर आबिद ढलवाल के मकान से जमशी जागा के मकान को शामिल कर ऊषा भट्ट के मकान से कमलेश जागा के मकान को शामिल कर चित्रगुप्त स्कूल तक, सुमन विहार कॉलानी एवं मध्य का समस्त क्षेत्र।
25	25	962	लडिया की हॉटल से लेकर ईदु सैद जमील बच्चु जी को शामिल कर मासूम मच्छी वाले से पुलिस चौकी को लेकर ग्यारसी लाल सैन के मकान को लेते हुए लखपत सिंह के मकान को लेकर इलियास नौसरानी से प्रदीप अग्रवाल के मकान को शामिल कर गली—गली गोपाल पाठक जी के मकान से बजरंग लाल जी की चक्की को शामिल कर हेमराज राठौर के मकान को लेते हुए रोड—रोड नगर पालिका की आवंटित दुकानों को शामिल कर कोटा की ओर रोड—रोड धोबियों की टेक चढ़कर अखलेश मास्टर के मकान को शामिल कर ननू बाजा वाले की गली के सामने के मकान को शामिल कर ब्राह्मणों के मकान को शामिल कर रोड—रोड गुलाम रसूल के मकान से निजाम मुआल के मकान को शामिल कर निसार के मकान से लेकर लडिया की हॉटल तक एवं मध्य का समस्त क्षेत्र।

अधिषाशी अधिकारी  
नगर पालिका कैथून

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**